

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2000-2001	वास्तविक 2001-2002	वास्तविक 2002-2003	वास्तविक 2003-2004	वास्तविक 2004-2005	वास्तविक 2005-2006	वास्तविक 2006-2007	वास्तविक 2007-2008	संशोधित 2008-2009	बजट 2009-2010
राजस्व प्राप्तियां	192605	201306	230834	263813	305991	347077	434387	541925	562173	609551
क. कर राजस्व										
(राज्यों के हिस्से को घटाकर)										
(ब्यौरा अनुबंध 7 में)	136658	133532	158544	186982	224798	270264	351182	439547	465970	497596
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(ब्यौरा अनुबंध 7 में)	55947	67774	72290	76831	81193	76813	83205	102378	96203	111955
पूंजी प्राप्तियां	134184	162500	180531	211333	200391	179549	144482	197978	308796	343680
1. आंतरिक कर्ज-बाजार उधार (निवल)	72931	87724	97588	88860	46031	95374	110446	131768	261972	308647
1.01 सकल बाजार उधार	100206	114213	125000	135934	80350	131000	146000	168101	306000	361782
1.02 घटाइए-वापसी-अदायगियां	27275	26489	27412	47074	34319	35626	35554	36333	44028	53135
2. विदेशी सहायता (निवल)	7505	5601	-11934	-13488	14753	7472	8472	9315	9603	16047
2.01 सकल विदेशी उधार	17328	14790	12352	11956	21855	14470	16358	16809	19578	27080
2.02 घटाइए-वापसी-अदायगियां	9823	9189	24286	25444	7102	6998	7886	7493	9975	11034
3. ऋणों की वसूली*	12046	16403	34191	67165	62043	10645	5893	5100	9698	9725
4. अल्प बचतें (निवल)@	8316	8755	...	...	...	...	...	-11302	1323	13256
5. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	4922	4173	4621	4892	5310	5545	5178	3897	4800	5000
6. विशेष जमाशायियां (निवल)	8452	8070	9326	110	-5750	487	...	...	...	...
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों आदि में इक्विटी का विनिवेश	2125	3646	3151	16953	4424	1581	534	38796	2567	1120
8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	17887	28128	43588	46841	73580	58445	13959	20404	18833	-10115
जोड़-प्राप्तियां	326789	363806	411365	475146	506382	526626	578869	739903	870969	953231
राजस्व खाते पर घाटा	85234	100162	107879	98261	78338	92300	80222	52569	241273	238534
प्राथमिक घाटा	19502	33495	27268	-815	-1140	13805	-7699	-44119	133821	107324
राजकोषीय घाटा	118816	140955	145072	123273	125794	146435	142573	126912	326515	332835
* अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर	3142	3976	4099	2171	1687	650	1000	...	1000	1000
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	311	354	455	491	510	506	495	479	495	495
@ घटाइए-राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का हिस्सा	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
केन्द्र को निवल	8316	8755	...	...	...	...	...	...	...	...
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं										
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जारी की गई प्रतिभूतियां जिन्हें दुतरफा पूंजी व्यय से हटा दिया गया है।	629	...	1011	1262	415	595	40	...	1077	...
(ख) प्रतिभूतियां जारी की गईं										
(i) राष्ट्रीयकृत बैंकों	-48	1124	384	-110	-88	500	...	...	...	...
(ii) एसबीआई का राइट्स निर्गम	...	...	...	...	...	...	...	9996	...	...
(ग) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां	...	9000	...	349	...	17263	24121	20554	75942	...
(घ) भारतीय खाद्य निगम को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	16200	...	...	...
(ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट को जारी प्रतिभूतियां	...	...	1511	2375	362	...	...	...	...	...
(च) भा.रि.बैं. को जारी प्रतिभूतियां	798	1141	374	...	...	...	...	...	...	...
(छ) उर्वरक कम्पनियों को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	...	7500	20000	...
(ज) कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना को जारी प्रतिभूतियां	579	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(झ) बीएसएनएल से अल्पावधि अग्रिमों की वसूली	1300	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ञ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में निवेश	...	400	...	...	...	...	...	...	...	...
(ट) आईडीबीआई के एसएएसएफ निधि के लिए परिसंपत्ति प्रबंध न्यास	...	...	...	...	...	9000	...	...	...	...
(ठ) एनएचपीसी और टीएचडीसी में इक्विटी में प्राप्ति योग्य ब्याज का परिवर्तन	...	...	...	...	...	640	...	...	...	...
(ड) आईडीएफसी लि. को दिए ऋणों को समंजित करने के लिए भा.रि.बैं. को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	350	...	...	...	...
(ढ) भारत की आकस्मिकता निधि की मूल निधि में बढ़ोतरी	...	...	...	...	...	...	450	...	...	...
(ण) आईडीबीआई की अशोधनीय परिसम्पत्तियों की वसूली	...	...	...	...	...	...	134	...	1500	...
(त) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को जारी प्रतिभूतियां	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...

वर्ष 2007-08 के वास्तविक आंकड़ें अनंतिम हैं।

टिप्पणी: राज्य सरकारों की ओर बकाया 4811.63 करोड़ रुपए की ऋण राशि जो बट्टे खाते में डाली गयी, 2007-08 में ऋणों की वसूली के समक्ष समायोजित की गयी।